



SSC GK

PYQs Class Notes

PART-3

Parmar Sir

Lecture:- 17

✓ **For Notes Join Telegram :**



Click on the icon.

OR
Scan



✓ **For Lectures Subscribe Our Parmar SSC Youtube Channel**



Click on the icon.

OR
Scan





1.

Who among the following was the minister who helped King Ashoka acquire the throne?

निम्नलिखित में से कौन सा मंत्री था जिसने राजा अशोक को सिंहासन हासिल करने में मदद की थी?

1. Samudra
2. Bhadrayudha
3. Radhagupta
4. Susima

1. समुद्र
2. भद्रायुध
3. राधागुप्ता
4. सुसिमा

Killed Susima
(brother of
Ashoka)

Ruler of Maurya
Dynasty

- Son of Bindusara
- Grandson of Chandragupta Maurya

Believed in Hinayana
form of Buddhism

Killed his 99 brothers to
ascend the throne

Send his son "**Mahendra**" and
daughter "**Sanghamitra**" to
Ceylon (now Sri Lanka) to
spread Buddhism

Ashoka

- **Ruled for:** 12 yrs
- Fought Kalinga War (ended in: 261 BC)
- Adopted Buddhism
- He replaced Berigoshia with Dhammagosha

↓
Physical
Conquest

↓
Conquest by war

↓
Cultural
Conquest

↓
Conquest by heart

Dhamma Mahamattas: new post
created by Ashoka to ensure people
are following Dhammagosha

Ashokan Edicts

- Found in two places:

1. **Rocks**

- a. Major: 14 → First to decipher: James Prinsep
- b. Minor: 15

2. **Pillars**

- Delhi-Topra Pillar Edict: only with 7th edict
- Use of only one language and only one script

↓
Prakrit

↓
Brahmi

Major Rock Edicts

- Total: 14
- Language: 3
- Script: 4



2. Net Indirect Taxes are included in _____.
शुद्ध अप्रत्यक्ष कर _____ में शामिल हैं।

1. Net Current Transfers
2. National Disposable Income
3. Personal Disposable Income
4. Personal Taxes

$$NNP_{FC} = NNP_{MP} - \text{Indirect Tax} + \text{Subsidy}$$

Personal Income = National Income - income earned but not received + income received but not earned

Personal disposable income = Personal income - Tax (direct/indirect)

3. The term 'secular' was added to the Preamble of the Indian Constitution by _____.

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द _____ द्वारा जोड़ा गया था।

1. the 40th Constitutional Amendment Act of 1968
2. the 42nd Constitutional Amendment Act of 1970.
3. the 45nd Constitutional Amendment Act of 1985.
- ✓ the 42nd Constitutional Amendment Act of 1976.

Summary of Constitution

Statements passed

→ ID. Card of Constitution: N A Palkhivala

→ Horoscope of the Constitution: K M

Munshi

→ Keynote of the Constitution: Ernst Barker

- Member of Drafting Committee
- Leader of Business Advisory Committee (minor committee)

→ Can preamble be amended?

Preamble is non justiciable (no justice provided)

Is preamble a part of Constitution?

Answer to both questions is "Yes"

"Sovereign" was added before 42nd CA


Preamble has been amended only once:

• 42nd CA, 1976

→ Also known as mini Constitution of India

→ It added terms like: Integrity, Socialist, Secular

→ Keshavnanda Bharti Case 1973



Taken from USA

Nature

Source of power

Objectives

When Constitution was adopted?

26 Jan 1950: Our Constitution was enforced

26 Jan 1930: first Independence Day celebrated decided during Lahore Session 1929

Flag hoisted by J L Nehru at banks of Ravi river

4.

Consider the following statements: / निम्नालिखित कथनों पर विचार करें:


- HDI is a composite index that accounts for life expectancy at birth, mean years of schooling, expected years of schooling, and Gross National Income per capita.
- As per the UNDP report, India's HDI value saw a decline during the COVID-19 pandemic.
- The HDI for India's female population has been historically lower than that for the male population. 4.The Inequality-adjusted Human Development Index (IHDI) considers inequality in the distribution of each dimension across the population.

- एचडीआई एक समग्र सूचकांक है जो जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय का हिसाब रखता है।
- UNDP रिपोर्ट के अनुसार, भारत के HDI मूल्य में COVID-19 महामारी के दौरान गिरावट देखी गई।
- भारत की महिला आबादी का एचडीआई ऐतिहासिक रूप से पुरुष आबादी की तुलना में कम रहा है।
- असमानता-समायोजित मानव विकास सूचकांक (आईएचडीआई) जनसंख्या में प्रत्येक आयाम के वितरण में असमानता पर विचार करता है।

Which of the statements above is/are correct? // उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

- 1, 3, and 4 only
- 1, 2, 3 and 4
- 1, 2, and 4 only
- 4, 2, 3, and 4 only

Released by UNDP



5. Consider the following statements: / निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- The Brahmaputra river is known as Tsangpo in its upper reaches in Tibet.
- The Godavari river is often referred to as the Ganges of the South.
- The Krishna river has the second-largest river basin in India, after the Ganges.
- The Indus river originates from the Tibetan plateau, near Lake Mansarovar.

Which of the statements above is/are correct? // उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

- 2, 3, and 4 only
- 1, 3, and 4 only
- 1, 2, and 3 only
- 1, 2, and 4 only

Godavari has the second largest river basin in India

• Known as "Singi Khamban" (lion's mouth) in Tibet
 • Origin: Bokhar Chu

6. Mamluk Dynasty was ended by which of the following rulers?
 मामलुक राजवंश का अंत निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा किया गया था?

- Qutb-ud-din Aibak / कुतुबुद्दीन ऐबक
- Timur / तैमूर
- Jalal-ud-din Firuz Khilji / जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी
- Ghiyas-ud-din Tughluq / ग़ियासुद्दीन तुग़लक़

Military commander who led South India expedition: Malik Kafur

Killed by son-in-law Alauddin Khilji (1296-1320)

- Slave Dynasty (1206-90 AD) → Founder: Qutubuddin
 - The Khilji Dynasty (1290-1320 AD) → Founder: Jalal-ud-din Khilji
 - The Tuglaq Dynasty (1320-1414 AD) → Founder: Ghiyasuddin Tuglaq
 - The Sayyid Dynasty (1414-1451 AD) → Founder: Khizr Khan
 - The Lodhi Dynasty (1451-1526 AD) → Founder: Bahlol Lodhi
- Sikandar Lodhi → Ibrahim Lodhi
- All were of Turkish origin except the Sayyid Dynasty



Sikandar Lodhi

• **Pen name:** Gulrukhi

• Gave order to build Moth ka Masjid



For double Gumbads

• **Slave of Mohammad Ghor:** Bhaktiyar Khilji



Destroyed Nalanda and
Vikramshila University

7.

Consider the following statements: / निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. The Prime Minister of India must be a member of the Lok Sabha or the Rajya Sabha.
 2. The President of India has the power to grant pardons, reprieves, respites, or remissions of punishment under Article 73 of the Indian Constitution.
 3. The Vice-President of India is ex officio Chairman of the Lok Sabha.
 4. The Governor of a state in India is appointed by the President and holds office during the pleasure of the President.
1. भारत के प्रधान मंत्री को लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए।
 2. भारत के राष्ट्रपति के पास भारतीय संविधान के अनुच्छेद 73 के तहत सजा को माफ करने, राहत देने, राहत देने या छूट देने की शक्ति है।
 3. भारत का उपराष्ट्रपति लोकसभा का पदेन सभापति होता है।
 4. भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह राष्ट्रपति की मर्जी तक पद पर बना रहता है।

Which of the statements above is/are correct? // उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

1. 3 and 4 only
- 2 only
- ✓ 1 and 4 only
- 4.1 only

• **Art 153:** estd. of Governor

• **Art 154:** Governor will be head of the state

• **Art 161:** Pardoning power of Governor

Art 243-2430



• **Art 73:** Provisions of Panchayat
(Schedule XI, 29 subjects) → Part IX

• **Art 74:** Provisions of Municipalities
(Schedule XII, 18 subjects) → Part IX A



Art 243P-243ZG

8.

Consider the following statements: / निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. The Constitution (74th Amendment) Act, 1992 provides for the constitution of Wards Committees.
2. The Twelfth Schedule of the Constitution lists the powers, authority, and responsibilities of Municipalities.
3. Urban Local Governments in India include Municipal Corporations, Municipal Councils, and Nagar Panchayats depending on the size of the population.

1. संविधान (74वां संशोधन) अधिनियम, 1992 शहरी समितियों के गठन का प्रावधान करता है।
2. संविधान की बारहवीं अनुसूची नगर पालिकाओं की शक्तियों, प्राधिकार और जिम्मेदारियों को सूचीबद्ध करती है।
3. भारत में शहरी स्थानीय सरकारों में जनसंख्या के आधार के आधार पर नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत शामिल हैं।

Which of the statements above is/are correct? // उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

1. 1 and 2 only
2. 1 and 3 only
3. 2 and 3 only
- ✓ 1, 2 and 3

• **3-tier Panchayat Raj system recommended by: Balwant Rai Mehta Committee**

• **Minimum age for Panchayat elections: 21**



9.

Consider the following statements: / निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. The Tehri Dam, located on the Bhagirathi River in Uttarakhand, is the highest dam in India.
2. The Kakrapar Atomic Power Plant is situated in Tapi, Gujarat.
3. The Narora Atomic Power Station, situated in Uttar Pradesh, is a major contributor to India's nuclear energy production.

1. उत्तराखण्ड में भागीरथी नदी पर स्थित टेहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है।
2. काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र तापी, गुजरात में स्थित है।
3. उत्तर प्रदेश में स्थित नरोरा परमाणु ऊर्जा स्थान भारत के परमाणु ऊर्जा उत्पादन में प्रमुख योगदानकर्ता है।

Which of the statements above is/are correct? // उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

1. 1 and 3 only
2. 2 and 3 only
3. 1, 2 and 3
4. 1 and 2 only

Highest gravity Dam: Bhakra Nangal dam on Sutlej river

- 1st Atomic Plant: Tarapur, Maharashtra
- Kaiga Atomic Power Station: Karnataka
- Kundankulam > Tamil Nadu
- Kalpakkam > Tamil Nadu
- Rawatbhata: Rajasthan

10.

Which of the following were the aspects of the green revolution?

निम्नलिखित में से कौन-से हरित क्रांति के पहलू थे?

- | | |
|---|--|
| A) Using High Yielding Varieties seeds | A) अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीजों का उपयोग करना |
| B) Mechanization of Agriculture | B) कृषि का मशीनीकरण |
| C) Use of Chemical Fertilizers and Pesticides | C) रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग |
| D) Irrigation | D) सिंचाई |

1. A, C, D only
2. A, B, C, D
3. A, B, C only
4. A, C, D only

11.

Ullambana is the festival of which of the following religion?

उल्लांबना निम्नलिखित में से किस धर्म का त्योहार है?

1. Buddhism / बौद्ध धर्म
2. Sikhism / सिख धर्म
3. Jainism / जैन धर्म
4. Hinduism / हिंदू धर्म

- Celebrated by Mahayana sect
- Celebrated by Buddhist communities in Arunachal, Ladakh, China, etc

Other festivals celebrated by Buddhist communities:

- Songkram: Arunachal
- Losar: New York
- Hemis: Ladakh
- Rumtek chaam: Sikkim

Golden Temple of South India in Bylakuppe (Karnataka): Namdrolling Monastery



12. Consider the following statements: / निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. The Bhagavad Gita is part of the Mahabharata and is a dialogue between Krishna and Arjuna.
2. Shankaracharya is associated with the Advaita Vedanta school of Hindu philosophy.
3. The Rigveda is the oldest of the Vedas and contains hymns dedicated to various deities.
4. The Natya Shastra, attributed to sage Bharata, is an ancient Indian treatise on the performing arts and is closely related to the expression of Hindu spirituality.

1. भगवद् गीता महाभारत का हिस्सा है और कृष्ण और अर्जुन के बीच एक संवाद है।
2. शंकराचार्य हिंदू दर्शन के अद्वैत वेदान्त विद्यालय से जुड़े हैं।
3. ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और इसमें विभिन्न देवताओं को समर्पित भजन शामिल हैं।
4. नाट्य शास्त्र, जिसका श्रेय ऋषि भरत को दिया जाता है, प्रदर्शन कलाओं पर एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है और हिंदू आध्यात्मिकता की अभिव्यक्ति से निकटता से संबंधित है।

Which of the statements above is/are correct? // उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

1. 2, 3, and 4 only
2. 1, 3, and 4 only
3. 1, 2, and 4 only

1. 2, 3, and 4 only
2. 1, 2, 3, and 4

- **Dvaita:** Madhavacharya
- **Advaita:** Shankaracharya
- **Dvaitadvaita:** Nimbarkacharya

13. Consider the following statements: / निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. The Vijayanagara Empire was established by Harihara-I and Bukka Raya-I.
2. Krishnadevaraya, the greatest ruler of the Vijayanagara Empire, belonged to the Tuluva dynasty.
3. The Battle of Talikota led to the decline of the Chola Empire.

1. विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर-प्रथम और बुक्का राय-प्रथम द्वारा की गई थी।
2. विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक कृष्णदेवराय नुलुव वंश के थे।
3. तालीकोटा की लड़ाई के कारण चोल साम्राज्य का पतन हो गया।

Which of the statements above is/are correct? // उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

1. 1 and 2 only
2. 1 and 3 only
3. 1, 2, and 3
4. 2 and 3 only

1565

Vijayanagar Empire

14. The literacy rate of males in India as per 2011 census is around _____.

2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर _____ के आसपास है।

1. 79%
2. 4%
3. 76%
4. 82%

- **Literacy Rate:** 74.04%
- **Male:** 82.14%
- **Female:** 65.46%

Literacy rates

State

- **Highest:** Kerala (94%)
- **Lowest:** Bihar (61.8%)

UT

- **Highest:** Lakshadweep (91.85%)
- **Lowest:** Dadra and Nagar Haveli: 76.24%

→ State with highest difference between male and female literacy rate: Rajasthan

15. The height of the Dancing Girl figurine of Indus Valley Civilization is about

सिंधु घाटी सभ्यता की नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति की ऊंचाई लगभग है

1. 111 cm
2. 83 cm
- ✓ 3. 11 cm
4. 169 cm



→ Dancing girl
made of
bronze

- Tribangha posture
- Made using lost wax technique

→ Bearded man
made of
steatite

→ Goddess Earth
made of
terracotta

16. Which of the following rivers are east flowing rivers?

निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ हैं?

- A) Godavari / गोदावरी
- B) Tapi / तापी
- C) Krishna / कृष्णा
- D) Narmada / नर्मदा

West flowing rivers

Which of the statements above is/are correct? // उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

1. A, B, C only
2. B, C, D only
- ✓ 3. A, C only
4. A, B only



17. Consider the following statements: / निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. The Eighth Schedule of the Indian Constitution lists 22 languages recognized as scheduled languages of India.
2. Sanskrit is the liturgical language of Hinduism, Buddhism, and Jainism, and is one of the 22 languages listed in the Eighth Schedule.
3. Konkani, spoken in the Western coastal regions of India, was added to the Eighth Schedule in the 71st amendment of the Constitution.
1. भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में भारत की अनुसूचित भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है।
2. संस्कृत हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म की धार्मिक भाषा है, और आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 22 भाषाओं में से एक है।
3. भारत के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में बोली जाने वाली कोंकणी को संविधान के 71वें संशोधन में आठवीं अनुसूची में जोड़ा गया।

Which of the statements above is/are correct? // उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

1. 1 only
2. 2 and 3 only
- ✓ 3. 1, 2, and 3
4. 1 and 2 only

8 Schedule: Official languages → Part 17

• Originally: 14

• At present: 22

• 21st CA: Sindhi added

• 71st CA: Konkani, Manipuri, Nepali

• 92nd CA: Bodo, Dongri, Maitihili, Santhali

• 96th CA: Odia

→ Art 120: language to be used in the Parliament → Hindi or English

• Father of Ornithology

• Founder of Congress

18. Consider the following statements: / निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. The Indian National Congress was formed in 1885 with A.O. Hume as its first president.
2. The Muslim League was founded in 1906 and proposed the idea of separate electorates for Muslims with the Lucknow Pact.
3. The All India Kisan Sabha was established in Lucknow in 1936 to address the issues of the peasantry.
4. The Ghadar Party was an international political movement founded by Punjabi Indians in the United States and Canada with the aim of liberating India from British rule.
1. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. हेमू के साथ हुई थी। हेमू इसके पहले अध्यक्ष बने।
2. मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी और इसने लखनऊ समझौते के साथ मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र का विचार प्रस्तावित किया था।
3. अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में किसानों के मुद्दों को संबोधित करने के लिए लखनऊ में की गई थी।
4. गदर पार्टी भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करने के उद्देश्य से संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में पंजाबी भारतीयों द्वारा स्थापित एक अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन था।

Which of the statements above is/are correct? // उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

1. 1, 3, and 4
2. 1, 2, and 4
- ✓ 3. 2, 3, and 4
4. 1, 2, and 3

→ 1st President: W C Banerjee

• Session in: Gokaldas Tejpal Sanskrit College, Bombay

• 1913: Ghadar Party → In San Francisco (USA) (HQ)

↳ Lala Hardayal

• Sohan Singh Bhakna

• Barkatullah

• Padmananda

• Sohan Singh Bhakna

A Japanese ship take on lease by Sikh businessman and sailed to Vancouver, Canada

Komagata Maru Incident

Associated with Ghadar Party

In 1914

→ Also 1st World War began

Sailed from: Japan, then Hong Kong and Singapore to Canada

Lucknow Session: 1916

Presided by Ambika Charan Mazumdar

1. Reunion of Extremists and Moderates and Extremists were re-inducted into Congress
2. **Lucknow Pact:** joint pact by INC and Muslim League

Joint demands of INC and Muslim League

Surat Split → Rash Behari Ghosh

- 1907
- Extremists and Moderates separates

Thrown out

19.

Consider the following statements: / निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. The HDI assesses a country's average accomplishment in three aspects: a long and healthy life, knowledge, and a decent standard of living.
 2. Kerala has consistently topped among Indian states in HDI rankings.
 3. According to the Human Development Report of 2021-22, India ranks 135 out of 191 countries, behind Bangladesh (129) and Sri Lanka (73).
1. एचडीआई किसी देश की औसत उपलब्धि का आकलन तीन पहलुओं में करता है: लंबा और स्वस्थ जीवन, ज्ञान और सभ्य जीवन स्तर।
 2. एचडीआई रैंकिंग में केरल लगातार भारतीय राज्यों में शीर्ष पर है।
 3. 2021-22 की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार, भारत 191 देशों में से बांग्लादेश (129) और श्रीलंका (73) से पीछे 135वें स्थान पर है।

India rank: 132

Which of the statements above is/are correct? // उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

- ✓ 1. 1 and 2 only
2. 1, 2 and 3
3. 1 and 3 only
4. 2 and 3 only



20.

Consider the following statements: / निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- A) Judicial decisions are bound by precedent in common law, whereas quasi-judicial decisions are generally not.
B) Judicial decisions may create new laws, but quasi-judicial decisions are based on existing law.

- A) न्यायिक निर्णय सामान्य कानून में मिसाल से बंधे होते हैं, जबकि अर्ध-न्यायिक निर्णय होते हैं आम तौर पर नहीं।
B) न्यायिक निर्णय नए कानून बना सकते हैं, लेकिन अर्ध-न्यायिक निर्णय मौजूदा कानून पर आधारित होते हैं।

Which of the statements above is/are correct? // उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

1. Neither A nor B is true
2. Only B is true
3. Only A is true
✓ Both A and B is true

Judicial bodies:

- Supreme Court
- High Court
- District Court

Quasi-judicial bodies:

- RBI
- Finance Commission